

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 189]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 3, 1972/चैत्र 14, 1893

No. 189]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 3, 1972/CHAITRA 14, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह भ्रम संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

### NOTIFICATIONS

New Delhi, the 3rd April 1972

S. O. 258(E).—In pursuance of section 67 of the Representation of the People (43 of 1951), the following declarations containing the names of the candidates dates elected to fill the seats in the Council of States of certain members who retired on the 2nd April, 1972, on the expiration of their term of office (including one seat of a member representing the State of Orissa who had resigned and who but for such resignation would have retired on the 2nd April, 1972), are published for general information:—

### DECLARATIONS

(1)

*Election to the Council of States by the Elected Members of the Legislative Assembly of Maharashtra*

"In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with clause (a) of sub-rule (1) of rule 84 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

1. Vyas, Mukund Labhshankar, MH No. 18, Lansdowne House, Lansdowne Road, Bombay;
2. Sikander Ali Wajid Abdul Gafoor, Kotwalpura, Panchakki Road, Aurangabad;

3. Kumbhare, Narayanrao Haribhau, Kamptee, Distt. Nagpur;
4. Desai, Sushila Mansukhlal, M.H. No. 73, Industrial Assurance Building, Veer Nariman Road, Bombay;
5. Patil, Gulabrao Raghunath, H. No. 637, Ward No. 32, Sangli;
6. Parashar, Vinaykumar Ramlal H. No. 316, Ward No. 42, Akola, Distt. Akola;
7. Pawar, Dhairvashilrao Yashwant, H. No. 1349, Old Agra Road, Surgana House, Nasik;

have been duly elected to fill the seats in that House of seven members retiring on 2nd April, 1972 on the expiration of their term of office.

PLACE: Council Hall, Bombay.

(Sd.) G. G. KUDALKAR,  
Deputy Secretary,

Date: 1st April, 1972.

Maharashtra Legislature Secretariat  
and Returning Officer."

(2)

*Election to the Council of States by the Elected Members of the Orissa Legislative Assembly*

"In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with clause (a) of sub-rule (1) of rule 84 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

1. Lokanath Misra, 5, Housing Board Colony, Lewis Road, Bhubaneswar;
2. Saraswati Pradhan, P.O. Kamagan, Distt. Sambalpur P.S. Bhatli;
3. Brahmananda Panda, Gandhi Nagar, P.O. Berhampur, Distt. Ganjam;

4. Chaitanya Prasad Maithi, Vill. Changua, P.O. Pandupani, Distt. Mavurbhanj have been duly elected to fill the seats in that House of four members retiring on 2nd April, 1972 on the expiration of their term of office.

PLACE: Bhubaneswar

(Sd.) N. RATH,  
Returning Officer  
&

Date: 31st March, 1972.

Secretary, Orissa Legislative Assembly."

(3)

*Election to the Council of States by the Elected Members of the Legislative Assembly of Tamil Nadu*

"In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with clause (a) of sub-rule (1) of rule 84 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

1. Thiru M. S. Abdul Khader, 48, Thulasinga Naicken St., Pudupet, Madras-2;
2. Thiru M. Kamalanathan, Anchoor Post, Krishnagiri Taluk, Dharamapuri District;
3. Thiru K. A. Krishnaswamy, "Thennagam", 143, L'oyds Road, Madras-86;
4. Thiru V. V. Swaminathan, 93, S. P. Koll Street, Chidambaram, South Arcot District;
5. Thiru M. C. Balan, Water Tank Road, Nagercoil, Kanyakumari Dist.;
6. Thiru A. K. Refaye, 8, Maracoir Lubhal St., Madras-1.

have been duly elected to fill the seats in that House of six members retiring on 2nd April, 1972 on the expiration of their term of office.

PLACE: Madras-9.

(Sd.) C. D. NATARAJAN,  
Secretary to Government,

Date: 1st April, 1972.

Legislative Assembly Department and  
Returning Officer."

(4)

*Election to the Council of States by the Elected Members of the Legislative Assembly of Uttar Pradesh*

"In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with clause (a) of sub-rule (1) of rule 84 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

1. Sri Anand Narain Mulla, Bala Qadar Road, Lucknow;
2. Sri Omprakash Tyagi, Ahmadnagar Uri Tauli, P.O. Tauli, Distt. Bulandshahar;
3. Sri Z. A. Ahmad, Moh. Sita Ram, Azamgarh;
4. Dr. Nurul Hasan, 24, Willingdon Crescent, New Delhi;
5. Sri Banarsi Das, 55, Purana Qila (5, Husainganj Wd.), Lucknow;
6. Sri Mohan Singh Oberoi, 101, Shivaji Road, Meerut;
7. Sri Yashpal Kapur, 970 Kutchery Road, Rai Bareilly;
8. Sri V. B. Singh, (Vir Bahadur Singh), (1) Lucknow University, Lucknow;  
(2) New Haiderabad, Lucknow-7;
9. Sri Ved Rattan Mohan, Bag Shahji, Allganj, Lucknow;
10. Sri Shukdeo Prasad, Vill. Piparpati, P.O. Piparpati Tevari, District Gorakhpur;
11. Sri Harsh Deo Malaviya, 24, Nawab Yousuf Road, Tahsil Chayal, District Allahabad.

have been duly elected to fill the seats in that House of the Eleven members retiring on 2nd April, 1972 on the expiration of their term of Office.

PLACE: Vidhan Bhavan, Lucknow

Dated 1st April, 1972

(Sd.) H. C. AGARWALA,  
Returning Officer for the Election  
to the Council of States by the  
Elected Members of the Legislative  
Assembly of Uttar Pradesh."

(5)

*Election to the Council of States by the Elected Members of the Legislative Assembly of West Bengal*

"In pursuance of the provisions contained in sub-section (2) of section 53 of the Representation of the People Act, 1951, read with sub-rule (1) of rule 11 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

1. Shri Kali Mukherjee, 118B, Acharyya Jagadish Bose Road, Calcutta-14;
2. Shri Krishna Bahadur Chettri, Di'aram, P.O. Tung, Dist. Darjeeling;
3. Dr. Rajat Kumar Chakrabarti, Flat No. A/4, University staff quarters, Jadavpur University, Raja Subodh Mallick Road, Calcutta-32;
4. Shri Sanat Kumar Raha, 49, Bhattacharyya Para Lane, P.O. Berhampore, Dist. Murshidabad;
5. Shri Sardar Amjad Ali, Vill. Munshidanga, P. O. Bankra, P.S. Domjur, Dist. Howrah.

have been duly elected to fill the seats in that House of five members retiring on the 2nd April, 1972 on the expiration of their term of office.

PLACE: Assembly House,

Calcutta.

Date: 1st April, 1972.

(Sd.) K. K. MOITRA,  
Returning Officer & Secretary,  
West Bengal Legislative Assembly."

(6)

*Election to the Council of States by the Elected Members of the Electoral College of Delhi*

"In pursuance of the provisions contained in sub-section (2) of section 53 of the Representation of the People Act, 1951, read with sub-rule (1) of rule 11 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

Smt. Savita Behan, 13/36, W.E.A., Arya Samaj Road, Karol Bagh, New Delhi-5, has been duly elected to fill the seat in that House of one member retiring on the 2nd April, 1972 on the expiration of her term of office.

PLACE: Delhi.

(Sd.) DESH DEEPAK,

Returning Officer,

Secretary (Law & Judicial)

Delhi Administration: Delhi."

[No. F. 13(4)/72-Leg.II(i).]

Date: 1st April, 1972.

### विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अप्रैल, 1972

का० प्रा० 258 (अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 67 के अनुसरण में निम्नलिखित घोषणाएं जिनमें राज्य सभा उन सदस्यों के पदों को भरने के लिए, जो 2 अप्रैल, 1972 को अपनी पदावधि समाप्त होने पर निवृत्त हो गए हैं (जिनके अन्तर्गत उड़ीसा राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले उस सदस्य का स्थान भी है जिसने पद त्याग किया है और जो इस प्रकार पद त्याग न करने पर 2 अप्रैल, 1972 को निवृत्त हुआ होता), निर्वाचित अभ्यर्थियों के नाम दिए गए हैं, सर्व साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है :—

### घोषणाएं

(1)

महाराष्ट्र विधान सभा के निर्वाचन सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन

"निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 84 के उप-नियम (1) के खण्ड (क) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषित करता हूँ कि उस सदन के सात सदस्यों के पदों को भरने के लिए जो अपनी पदावधि की समाप्ति पर 2 अप्रैल, 1972 को निवृत्त हो रहे हैं :—

1. स्यास, मुकुन्द लाभशंकर,  
म० सं० 18, लैस डाउन हाउस, लैस डाउन रोड,  
बम्बई;
2. सिकन्दर अली वाजिद अब्दुल गफ़ूर,  
कोतवालपुरा, पनचक्की रोड, औरंगाबाद;
3. कुम्भारे, नारायणराव हरिभाऊ,  
कामठी. जिला नागपूर:

4. देसाई, सुशीला मनसुखलाल,  
मं० सं० 73, इन्डस्ट्रियल एश्योरेंस बिल्डिंग,  
वीर नारीमन रोड, बम्बई;
5. पाटिल, गुलाबराव रघुनाथ,  
मं० सं० 637, वार्ड सं० 32, सांगली;
6. पाराशर, विनय कुमार रामलाल  
मं० सं० 316, वार्ड सं० 42, अकोला जिला अकोला
7. पवार, धैर्यशीलराव यशवन्त,  
मं० सं० 1349, ओल्ड आगरा रोड  
सुरगना हाउस, नासिक;

सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान—कोसिल हाल, बम्बई।

(ह०) जी० जी० कुदालकर,

उप सचिव,

महाराष्ट्र विधान मण्डल सचिवालय

और रिटनिंग आफिसर।

तारीख : 1 अप्रैल, 1972

(2)

उड़ीसा विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचित

“निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 84 के उप-नियम (1) के खण्ड (क) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषित करता हूँ कि उप सदन के चार सदस्यों के पदों को भरने के लिए जो अपनी पदावधि की समाप्ति पर 2 अप्रैल, 1972 को निवृत्त हो रहे हैं :—

1. लोक नाथ मिश्र,  
5, हाऊसिंग बोर्ड कालोनी,  
लैक्स रोड, भुवनेश्वर,
2. सरस्वती प्रधान,  
डा० घ० कामागन, जिला सम्बलपुर,  
थाना भादली;
3. ब्रह्मानन्द पण्डा,  
गांधी, नगर,  
डा० घ० बरहामपुर,  
जिला गंजम्;

4. चैतन्य प्रसाद माझी,  
ग्राम चंगुआ,  
डा० ध० पाण्डुपाणि  
जिला मथूरभंज

सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं ।

स्थान : भुवनेश्वर

(ह०) एन० राठ,

रिटनिंग आफिसर

और

तारीख : 31-3-72

सचिव, उड़ीसा विधान सभा ।”

(3)

तमिल नाडु विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचित

“निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 84 के उप-नियम (1) के खण्ड (क) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुमरण में, मैं घोषित करता हूँ कि उस सदन के छः सदस्यों के पदों को भरने के लिए जो अपनी पदावधि की समाप्ति पर 2 अप्रैल, 1972 को निवृत्त हो रहे हैं :—

1. श्री एम०एस० अम्बुल कादर,  
48, थुलसिगा नैकेन स्ट्रीट,  
पुडुचेट, मद्रास-2;
2. श्री एम० कमलनाथन,  
डाकघर अंचूर  
कृष्णागिरी तालुक, जिला धर्मापुरी;
3. श्री के० ए० कृष्णास्वामी,  
“शेन्नगाम”  
143, लायड रोड, मद्रास-86;
4. श्री वी० वी० स्वामीनाथन,  
93, एस० पी० कोइल स्ट्रीट,  
चिदाम्बरम्,  
जिला दक्षिण आरकोट;
5. श्री एम० सी० बालान,  
वाटर टैंक रोड,  
नागरकोइल, जिला कन्याकुमारी;

6. श्री ए० के० रिफाये  
8, माराकायर लुभाई स्ट्रीट,  
मद्रास-1

सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : मद्रास-9

(ह०) सी० डी० नटराजन,  
सचिव, सरकार, विधान सभा विभाग  
और

तारीख : 1 अप्रैल, 1972

रिटनिंग आफिसर।

(4)

उत्तर प्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन

“निर्वाचनों का संकलन नियम, 1961 के नियम 84 के उप-नियम (1) के खण्ड (क) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषित करता हूँ कि उस सदन के ग्यारह सदस्यों के पदों को भरने के लिए जो अपनी पदावधि की समाप्ति पर 2 अप्रैल, 1972 को निवृत्त हो रहे हैं —

1. आनन्द नारायण मुल्ला,  
बाला कादर रोड, लखनऊ;
2. श्री ओम प्रकाश श्यामी,  
अहमदनगर ऊर्फ ताऊली, डा० घ० ताऊली,  
जिला बल्लनशहर;
3. श्री जेड ए० अहमद,  
मोहल्ला सीताराम, आजमगढ़;
4. डा० नूरुल हसन,  
24 विलिंगड; क्रिसेन्ट, नई दिल्ली;
5. श्री बनारसी दास,  
55, पुराना किला (5, हुसैन गंज बाई),  
लखनऊ;
6. श्री मोहन सिंह ओबेराय,  
101, शिवाजी रोड, मेरठ;
7. श्री यशपाल कपूर,  
970, कचहरी रोड, राय बरेली;
8. श्री बी० बी० सिंह  
(बीर बहादुर सिंह)  
(1) लखनऊ विश्व विद्यालय, लखनऊ  
(2) न्यू हैदराबाद, लखनऊ-7;

9. श्री वेद रत्न मोहन,  
बाग शाहजी, अलीगंज, लखनऊ;
10. श्री सुखदेव प्रसाद,  
ग्राम पीपरपट्टी, डा० घ० पीपरपट्टी  
तेघरी, जिला गोरखपुर;
11. श्री हर्षदेव मालवीय,  
24, नवाब यूसुफ रोड,  
तहसील चायल, जिला इलाहाबाद,

सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

विधान भवन, लखनऊ

तारीख 1 अप्रैल, 1972

(ह०) एच० सी० अग्रवाल,

उत्तर प्रदेश विधान सभा के  
निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य  
सभा के निर्वाचन के लिए  
रिटर्निंग आफिसर।”

5

पश्चिम बंगाल विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन

“निर्वाचनो का संचालन नियम, 1961 के नियम 11 के उप-नियम (1) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 की उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषित करता हूँ कि उस सदन के पाँच सदस्यों के पदों को भरने के लिए जो अपनी पदावधि की समाप्ति पर 2 अप्रैल, 1972 को निवृत्त हो रहे हैं :—

1. श्री काली मुखर्जी,  
118 बी, आचार्य जगदीश बोस रोड,  
कलकत्ता-14;
2. श्री कृष्ण बहादुर क्षेत्री,  
दिलार म, डा० घ० तुंग, जिला दार्जिलिंग;
3. डा० रजत कुमार चक्रवर्ती,  
फ्लैट सं० ए/4 युनिवर्सिटी स्टाफ क्वार्टर्स,  
आदवपुर युनिवर्सिटी, राजा सुबोध मलिक रोड,  
कलकत्ता-32;
4. श्री सनत कुमार राहू,  
49, भट्टाचार्य पारा लेन,  
डा० घ० बरहमपुर, जिला मुर्शिदाबाद;

5. श्री सरदार अमजद अली,  
ग्राम मुन्शीडांगा, डा० घ० बांकुरा,  
पु० स्टे० दोमजुर, जिला हावड़ा ।

सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं ।

स्थान : सभा भवन, कलकत्ता

तारीख : 1 अप्रैल, 1972

(ह०) के० के० मोयगा,

रिटनिंग आफिसर और

सचिव, पश्चिम बंगाल विधान

सभा ।”

(6)

दिल्ली के निर्वाचक गण द्वारा राज्य सभा के लिए निर्वाचन

“निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 11 के उप नियम (1) के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 53 की उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषित करता हूँ कि उस सदन के एक सदस्य के पद को भरने के लिए जो अपनी पदावधि की समाप्ति पर 2 अप्रैल, 1972 को निवृत्त हो रहा है —

श्रीमती सविता बहन,  
13/36, इन्फ्यू ई० ए०, आर्य समाज रोड,  
करोल बाग, नई दिल्ली-5

सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गई हैं ।

स्थान : दिल्ली

तारीख 1-4-1972

(ह०) देश दीपक,

रिटनिंग आफिसर

सचिव (विधि और न्याय)

दिल्ली प्रशासन : दिल्ली ।”

[सं० फा० 13(4)/72-विधायी-II(i)]

S.O. 259(E).—Whereas elections have been held in pursuance of the Notifications No. F. 13(4)/72-Leg. II dated the 14th March, 1972 and No. F. 13(4)/72-Leg. II dated the 22nd March, 1972 (published in Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 14th March and 22nd March, 1972 respectively) issued under section 12 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), for the purpose of filling the seats of the members of the Council of States elected by the elected members of the Legislative Assemblies of the States of Maharashtra, Orissa, Tamil Nadu, Uttar Pradesh and West Bengal and the members of the electoral college of the Union territory of Delhi, and retiring on the 2nd April, 1972, on the expiration of their term of office (including one seat of a member representing the State of Orissa who had resigned and who but for such resignation would have retired on the 2nd April, 1972);

And whereas the President has nominated to the Council of States four persons to fill the seats of the four nominated members of the Council of States who retired on the 2nd April, 1972 on the expiration of their term of office;

Now, therefore, in pursuance of section 71 of the said Act, the names of the members elected by the elected members of the Legislative Assemblies of the States of Maharashtra, Orissa, Tamil Nadu, Uttar Pradesh and West Bengal and

the members of the electoral college of the Union territory of Delhi and the names of the members nominated by the President under sub-clause (a) of clause (1) of article 80 of the Constitution are hereby notified for general information:—

| Serial No. | Name of Member |
|------------|----------------|
|------------|----------------|

*Maharashtra*

1. Shri Vyas, Mukund Labhshankar
2. Shri Sikandar Ali Wajid Abdul Gaffoor
3. Shri Kumbhare, Narayanrao Haribhau.
4. Miss Desai, Sushila Mangukhlal
5. Shri Patil, Gulabrao Raghunath
6. Shri Parashar, Vinaykumar Ramlal
7. Shri Pawar, Dahiryashilrao Yashwant

*Orissa*

8. Shri Lokanath Misra
9. Shrimati Saraswati Pradhan
10. Shri Brahmananda Panda
11. Shri Chaitanya Prasad Majhi

*Tamil Nadu*

12. Shri M. S. Abdul Khader
13. Shri M. Kunalanathan
14. Shri K. A. Krishnaswamy
15. Shri V. V. Swaminathan
16. Shri M. C. Balan
17. Shri A. K. Relaye

*Uttar Pradesh*

18. Shri Anand Narain Mulla
19. Shri Omprakash Tyagi
20. Shri Z. A. Ahmed
21. Dr. Nurul Hasan
22. Shri Banarsi Das
23. Shri Mohan Singh Oberoi
24. Shri Yashpal Kapur
25. Shri Vir Bahadur Singh
26. Shri Ved Rattan Mohan
27. Shri Shukhdeo Prasad.
28. Shri Harsh Deo Malaviya.

*West Bengal*

29. Shri Kali Mukherjee
30. Shri Krishana Bahadur Chettri
31. Dr. Rajat Kumar Chakrabarti
32. Shri Sanat Kumar Raha
33. Shri Sardar Amjad Ali

*Delhi*

34. Shrimati Savita Behan.

*Members nominated by the President*

35. Shri Chandra Kisan Daphtary
36. Shri Pramatha Nath Bisi
37. Shri Habib Tanvir
38. Shri Abu Abraham.

फा० आ० 259(अ).—यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अधीन जारी की गई अधिसूचना सं० फा० 13(4)/72—विधायी—II तारीख 14 मार्च, 1972 और सं० फा० 13(4)/72—विधायी—II तारीख 22 मार्च, 1972 (भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में क्रमशः तारीख 14 मार्च और 22 मार्च, 1972 को प्रकाशित) के अनुसरण में, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के निर्वाचक गण द्वारा निर्वाचित राज्य-सभा के उन सदस्यों के पदों को भरने के प्रयोजनार्थ, जो 2 अप्रैल, 1972 को अपनी पदावधि की समाप्ति पर निवृत्त हो रहे हैं, (जिसके अन्तर्गत उड़ीसा राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले उस सदस्य का स्थान भी है जिसने पद त्याग किया है और जो इस प्रकार पद त्याग न करने पर 2 अप्रैल, 1972 को अन्यथा निवृत्त हुआ होता) निर्वाचन कराए गए हैं।

और यतः राष्ट्रपति ने राज्य-सभा के लिए चार व्यक्तियों को राज्य-सभा के उन चार नाम-निर्देशित सदस्यों के पदों को भरने के लिए नामनिर्देशित किया है जो, 2 अप्रैल, 1972 को अपनी पदावधि की समाप्ति पर निवृत्त हुए हैं;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 71 के अनुसरण में महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों, और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के निर्वाचक गण द्वारा निर्वाचित सदस्यों के नाम और संविधान के अनुच्छेद 80 के खण्ड (1) के उप-खण्ड (क) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्देशित सदस्यों के नाम एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए अधिसूचित किए जाते हैं :—

## क्रम संख्या

## सदस्य का नाम

## महाराष्ट्र

1. श्री व्यास मुकुन्द लाभशंकर
2. श्री सिकन्दर अली वाजिद अब्दुल गफूर
3. श्री कुंभारे, नारायण राव हरिभाऊ
4. कुमारी देसाई, सुशीला मनसुखलाल
5. श्री पाटिल, गुलाबराव रघुनाथ
6. श्री पाराशर, विनय कुमार राम लाल
7. श्री पवार, धैर्यशील राव यशवन्त ।

## उड़ीसा

8. श्री लोकनाथ मिश्र
9. श्रीमती सरस्वती प्रधान
10. श्री ब्रह्मानन्द पंडा
11. श्री चैतन्य प्रसाद माझी

## तमिलनाडु

12. श्री एम० एस० अब्दुल कादर
13. श्री एम० कमलनाथन
14. श्री के० ए० कृष्णास्वामी

## क्रमिक संख्या

## सदस्य का नाम

15. श्री बी० बी० स्वामीनाथन
16. श्री एम० सी० बालन
17. श्री ए० के० गिफाये

## उत्तर प्रदेश

18. श्री आनंद नारायण मूला
19. श्री ओमप्रकाश त्यागी
20. श्री जेड० ए० अहमद
21. डा० नूरुल हसन
22. श्री बनारसी दास
23. श्री मोनहू सिंह ओबेराय
24. श्री यशपाल कपूर
25. श्री बीर बहादुर सिंह
26. श्री वेद रत्न मोहन
27. श्री सुखदेव प्रसाद
28. श्री हर्ष देव मालवीय

## पश्चिम बंगाल

29. श्री काली मुखर्जी
30. श्री कृष्ण बहादुर क्षेत्री
31. डा० रजत कुमार चक्रवर्ती
32. श्री सनत कुमार राहा
33. श्री सरदर अमजद अली

## बिहारी

34. श्रीमती सविता बहन

## राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्देशित सदस्य

35. श्री चन्द्रकिशन दफ्तरी
36. श्री प्रमथ नाथ बिंसी
37. श्री हबीब तनवीर
38. श्री अबू अब्राहम

[सं० एफ० 13(4)/72-विधायी-II(ii)]

के० के० सुन्दरम, संयुक्त सचिव ।